



LINAKS MICROELECTRONICS LIMITED

REGD.OFF: 12.6 KM, BARABANKI ROAD, CHINHAT, LUCKNOW-226019
WORKS: NEAR SAFEDABAD RLY CROSSING, BARABANKI RD,
SAFEDABAD 225003
CORPORATE OFF. 7TH FLOOR, ELDECO CORPORATE CHAMBER-II, VIBHUTI
KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW -226012
Tel: +91-9044054841, Email: contact@linaks.in; linakspcb@yahoo.com
GSTIN: 09AAACL5625R2ZW, CIN L32101UP1986PLC007841

Date: August 12, 2026

To
The General Manager
Corporate Relationship Department,
BSE Limited, P.J. Tower,
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001

Scrip Code: 517463

Sub: Newspaper Advertisement – Unaudited Financial Results of Linaks Microelectronics Limited (“the Company”) for the First Quarter ended June 30, 2026

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with relevant circulars issued in this regard, please find enclosed the copies of the newspaper advertisements for Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended June 30, 2026, published today i.e. August 12, 2026, in the following newspapers:

- Financial Express (English)
- Jansatta (Hindi)

The aforesaid copies have also been made available on the website of the Company at www.linaks.in.

You are requested to kindly take the above on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

**For and on behalf of the Board
Linaks Microelectronics Limited**



Bhumnika Mittal
Company Secretary cum Compliance Officer
Membership No.: A63808

Enclosed: As above.



Asset Reconstruction Company (India) Ltd.,

Acting in its capacity as Trustee of Arcil-Trust-2025C-018-Trustset up in respect of financial assets relating toM/s. NCS Computech Ltd.

Arcil office: The Ruby, 10th floor, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West) Mumbai-400 028

Website: www.arcil.co.in; **CIN** - U65999MH2002PLC134884

PUBLIC NOTICE FOR SALE THROUGH ONLINE E-AUCTION IN EXERCISE OF THE POWERS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT) READ WITH RULES 6, 8 & 9 OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s), in particular, that the below described immovable property mortgaged/ charged to the Asset Reconstruction Company (India) Limited, acting in its capacity as Trustee of **Arcil-Trust-2025C-018 ("ARCIL")** (pursuant to the assignment of financial asset by the HDFC Bank. to ARCIL vide registered Assignment Agreement dated Mar28,2025), will be sold on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and "Without recourse basis" by way of online e-auction, for recovery of outstanding dues of together with further interest, charges and costs etc., as detailed below in terms of the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rules6, 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Name of the Borrower	M/s. NCS Computech Ltd., Office Address: Room No. 307 A, Regd. Office: 228, Doluipara, Makhla, Hooghly – 712245, West Bengal Also at: 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal
Name of the Guarantors/ Co-Borrowers/ Mortgagors	Manohar Malani , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal. Also at: 16/3/2, Rownd Tank Lane, Howrah– 711101, West Bengal. Poonam Chand Malani , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal. Also at:16/3/2, Rownd Tank Lane, Howrah– 711101, West Bengal Rajkumar Malani , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal. Also at:P-273, Manik Tala Main Road, Scheme-VI M, Flat-4A, Kolkata-700054, West Bengal Aruna Malani , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal. Also at: 16/3/2, Rownd Tank Lane, Howrah– 711101, West Bengal. Sandeep Tambi , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal. Also at:Flat No. 303, 3rd floor, West side, "Dulal Apartment", Premises No. 330, Netaji Subhas Road (Near Kali Babur Bazar), P.S. –Howrah, Dist- Howrah – 711101 Pinky Tambi , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal. Also at:Flat No. 303, 3rd floor, West side, "Dalal Apartment", Premises No. 330, Netaji Subhas Road (Near Kali Babur Bazar), P.S. –Howrah, Dist- Howrah – 711101. Manohar Malani (HUF) , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal Raj Kumar Damani (HUF) , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal Minal Bhagat , 30/1, Sarat Bose Road, Flat No. 25, 2nd floor, Shivalik Building, Kolkata – 700020 Nikhil Bhagat , 30/1, Sarat Bose Road, Flat No. 25, 2nd floor, Shivalik Building, Kolkata – 700020 M/s. Positive Merchants Private Limited , 3, Commercial Building, 23, N.S. Road, Kolkata – 700001, West Bengal
Outstanding amount as per SARFAESI Notice dated Aug 31, 2021	Rs. 13,12,76,185.99/- (Rupees Thirteen Crore Twelve Lac Seventy Six Thousand One Hundred Eighty Five and Ninety Nine Paise Only) as on July 31, 2021 together with further interest thereon from Aug01, 2021 till payment/realization.
Possession	1) Selling Bank taken Symbolic possession as per provisions of SARFAESI Act, 2002 on July 02, 2022 2) Selling Bank taken Symbolic possession as per provisions of SARFAESI Act, 2002 on July 02, 2022 3) Selling Bank taken Symbolic possession as per provisions of SARFAESI Act, 2002 on January 08, 2018 4) Arcil has taken Symbolic possession as per provisions of SARFAESI Act, 2002 on July 22, 2026
Date of Inspection	Will be arranged on request
Earnest Money Deposit (EMD)	EMD Amount: 1) Rs. 3,30,000/- (Indian Rupees Three Lakh Thirty Thousand only) 2) Rs. 4,00,000/- (Indian Rupees Four Lakhonly) 3) Rs. 1,50,000/- (Indian Rupees One Lakh Fifty Thousand only) 4) Rs. 15,30,000/- (Indian Rupees Fifteen Lakh Thirty Thousand only) The Earnest Money has to be deposited by way of DD or RTGS Favouring "Asset Reconstruction Company (India) Ltd.", Current Account: 02912320000561, HDFC Bank Limited, Branch: Lower Parel, Mumbai, IFSC Code: HDFC0000291
Last Date for submission of Bid & EMD	29.09.2026 before 5:00 p.m.
Reserve Price	1) Rs. 33,00,000/- (Indian Rupees Thirty Three Lakh only) 2) Rs. 40,00,000/- (Indian Rupees Forty Lakhs only) 3) Rs. 15,00,000/- (Indian Rupees Fifteen Lakhs only), 4) Rs. 1,53,00,000/- (Indian Rupees One Crore Fifty Three Lakhs only).
Bid Increment	1) Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) & in such multiple. 2) Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) & in such multiple. 3) Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only) & in such multiple. 4) Rs. 30,000/- (Rupees Thirty Thousand only) & in such multiple.
Date & Time of E-Auction	1) 30.09.2026 at 12:00 Noon 2) 30.09.2026 at 12.30 PM 3) 30.09.2026 at 02.30 PM 4) 30.09.2026 at 03.00 PM
Link for Tender documents	www.arcil.co.in
Pending Litigations known to ARCIL	Not Known
Encumbrances/Dues known to ARCIL	Not Known
Description of the Secured Asset being auctioned.	1. All that piece and parcel of Flat admeasuring 670 sq. ft. (super built-up area) in the 1 st floor, 'Govind Nwas', Premises No. 13, ward No. 70, Ram Mohan Datta Road, P.S. – Showanipur, P.O.-A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700020 belonging to Minal Bhagat and Nikhil Bhagat and the entire building is bounded as follows - East: By Municipal drain and thereafter by Premises No. 13, Ray Street, West: By Ram Mohan Dutta Road, North: By Municipal drain and thereafter premises No. 12, Ram Mohan Dutta Road, Kolkata, South-Partly by Premises No. 14, Ram Mohan Datta Road and partly by adjacent premises 2. All that part and parcel of Flat No. 302, 3rd floor, situated in 'Dulal Apartment', admeasuring about 1172 sq. ft. (super built-up area), Premises No. 330, Netaji Subhas Road, P.S.-Howrah, H.M.C. Ward No. 27, under Dag No. 531, Khatian No. 361, J.L. No.1, Sheet No. 8, R.S. No. 1990, Mouza-Howrah belonging to Sandeep Tambi, which is butted and bounded as follows - East- Premises No. 331, Netaji Subhas Road, West- 6'-0" wide common passage, North- Netaji Subhas Road, South-Premises No. 330/1, Netaji Subhas Road 3. All that part and parcel of Flat No. 303, 3rd floor, situated in 'Dulal Apartment', admeasuring about 450 sq. ft. (super built-up area), Premises No. 330, Netaji Subhas Road, P.S.-Howrah, H.M.C. Ward No. 27, under Dag No. 531, Khatian No. 361, J.L. No.1, Sheet No. 28, R.S. No. 1990, Mouza-Howrah belonging to Pinky Tambi, which is butted and bounded as follows - East- Premises No. 331, Netaji Subhas Road, West- 6'-0" wide common passage, North- Netaji Subhas Road, South-Premises No. 330/1, Netaji Subhas Road 4) All that part entire 3rd floor with its terrace/roof rights and above upto sky alongwith proportionate undivided share in the free hold rights of the land underneath, part of free-hold built up property bearing No. D-139, situated at New Rajinder Nagar, New Delhi – 110060 measuring 125 sq.yards and belonging to M/s. NCS Computech Pvt. Ltd.

Terms and Conditions:

- The Auction Sale is being conducted by the Authorised Officer under the provisions of SARFAESI Act with the aid and through e-auction, Auction/ Bidding shall be only through "Online Electronic Mode" through the website www.arcil.co.in. Arcil is the service provider to arrange platform for e-auction.
- The Auction is conducted as per the further Terms and Conditions of the Bid Document and as per the procedure set out therein. Bidders may go through the website of ARCIL, www.arcil.co.in and the link mentioned herein above as well as the website of the service provider, ARCIL, for bid documents, the details of the secured asset put up for auction/ obtaining the bid forms.
- The bidders may participate in the e-auction quoting/ bidding from their own offices/ place of their choice. Internet connectivity shall have to be arranged by each bidder himself/itself. The Authorised Officer/ARCIL/ service provider shall not be held responsible for internet connectivity, network problems, system crash down, power failure etc.
- For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact Mr. Sadananda Ghosal - 8090230555, email id: sadananda.ghosal@arcil.co.in;
- All the intending purchasers/ bidders are required to register their name in the portal mentioned above as www.arcil.co.in and get user ID and password free of cost to participate in the e-auction on the date and time as mentioned aforesaid.
- For inspection of the property or more information, the prospective bidders may contact Mr.-Sadananda Ghosal - 8090230555.
- At any stage of the auction, the Authorised Officer may accept/reject/modify/cancel the bid/offer or postpone the auction without assigning any reason thereof and without any prior notice.
- The successful purchaser/bidder shall bear any statutory dues, taxes, fees payable, applicable GST on the purchase consideration, stamp duty, registration fees, etc. that is required to be paid in order to get the secured asset conveyed/delivered in his/her/its favour as per the applicable law.
- The intending bidders should make their own independent enquiries/ due diligence regarding encumbrances, title of secured asset put on auction and claims/rights/dues affecting the secured assets, including statutory dues, etc., prior to submitting their bid. The auction advertisement does not constitute and will not constitute any commitment or any representation of ARCIL. The Authorized Officer of ARCIL shall not be responsible in any way for any third-party claims/rights/dues.
- The particulars specified in the auction notice published in the newspapers have been stated to the best of the information of the undersigned; however undersigned shall not be responsible / liable for any error, misstatement or omission.
- In the event of and on later development due to intervention/order of any court or tribunal save appropriate legal opinion and legal remedy available to ARCIL, if the sale is required to be cancelled ARCIL shall refund the "EMD" and/ or "Sale Proceeds" without any interest and the purchaser/ bidder. The Purchaser/ Bidder shall have no right to raise any claim against ARCIL or its officers, of whatsoever nature with respect to loss, damages, costs/expenses, loss of business opportunity etc.
- The Borrower/ Guarantors/ Mortgagors, who are liable for the said outstanding dues, shall treat this Sale Notice as a notice under Rules 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, about the holding of the above mentioned auction sale.
- In the event, the auction scheduled hereinabove fails for any reason whatsoever, ARCIL has the right to sell the secured asset by any other methods under the provisions of Rule 8(5) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and SARFAESI Act, 2002.

Sd/-
Authorized Officer
Asset Reconstruction Company (India) Ltd.
Trustee of Arcil-Trust-2025C-018-Trust

Place: Kolkata
Date: 12.08.2026



CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Corporate office: Chola Crest, Super B, C54 & C55, 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600 032.

Possession Notice [(Appendix IV) Under Rule 8 (1)]

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of **M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited**, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and dealings with the property will be subject to the charge of **M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited** for an amount as mentioned herein under and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

NAME AND ADDRESS OF BORROWER/S & LOAN/AC No.	DT. OF DEMAND NOTICE	D/S. AMT.	DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	DATE OF POSSESSION
Loan A/c LAP3ABD000086590 & LAP5ABD000169067 1. Mr/Mrs. RAJESH KUMAR MAURY (alias) RAJESH KUMAR MAURYA (alias) RAJESH MAURY 2. Mr/Mrs. Kusum Devi 3. Mr/Mrs. Mukesh Maurya 4. Mr/Mrs. Nand Lal At : BAJAJHA,BAJHA, ATRAMPUR,NEAR DBS PUBLIC SCHOOL, Allahabad, UTTAR PRADESH - 229412 Also At : Khasra No. 557, Property Situated At Mauja Adampur Pargana Nawabganj Tehsil Soroan District Allahabad, NA, Adampur, Soroan, Prayagraj, Uttar Pradesh, 229412	28-05-2026	Rs. 2013719/- (Rupees Twenty Lakhs Thirteen Thousand Seven Hundred Nineteen only) as on 28-05-2026	All that piece and parcel of Old Araz No.557 Mi, New Araz No. 1173, Mauza-Adampur,Pargana-Mizrapur Chauhari, Tehsil - Soroan, Prayagraj admeasuring - 114sq.mtr. And Bounded On - East:- House and Plot Mahadev, West -Property Mukir, North: - Property of Mukir, South: Road.	07-08-2026 (POSSESSION)

Sd/- AUTHORISED OFFICER,
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Place : Prayagraj
Date : 07-08-2026



LINAKS MICRO ELECTRONICS LIMITED

Registered Office: 12.6 KM Barabanki Road Chinat Lucknow, Uttar Pradesh - 227105
CIN: L32101UP1986PLC007841
Website: www.linaks.in, Email: linakspcb@yahoo.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026
(Amount in Rupees)

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30.06.2026 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2026 (Audited)
Total Income from Operations	-	11,31,200	11,31,200
Net Profit Before Tax and Exceptional Items	(8,93,191.11)	4,31,699.60	(21,06,795.97)
Net Profit before Tax and after Exceptional Items	(8,93,191.11)	4,31,699.60	(21,06,795.97)
Net Profit after Tax and Exceptional Items	(8,93,191.11)	4,31,699.60	(21,06,795.97)
Total Comprehensive Income for the Period	-	-	-
Equity Share Capital	1,73,35,300.00	1,73,35,300.00	1,73,35,300.00
Earnings Per Share (Face Value Rs. 1)	-	-	-
Basic (in Rs.)	(0.05)	0.02	(0.12)
Diluted (in Rs.)	(0.05)	0.02	(0.12)

Notes:

- The above results of Linaks Microelectronics Limited ("the Company") for the quarter ended June 30, 2026 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on August 11, 2026. The statutory auditors have carried out a limited review on these results and issued an unmodified conclusion.
- The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter ended on June 30, 2026, which are also available on the BSE Limited website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.linaks.in).

For and On Behalf of
Linaks Micro Electronics Limited
Sd/-
Bhumika Mittal
Company Secretary cum Compliance Officer
Membership No.: A63908



Date: 12.08.2026
Place: Lucknow

ELLORA TRADERS LIMITED					
CIN : L27101UP1905PLC007436					
16/95, THE MALL, KANPUR - 208 001					
Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2026					
(See Regulation 47(1) (b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015) (Rs. in Lacs)					
Particulars	Quarter ended 30th June 26	Quarter ended 31st Mar 26	Quarter ended 30th June 25	Year ended 31st March 26	
Total Revenue from Operation	1.44	1.11	1.19	4.70	
Net Profit/(+)/Loss(-) for the period (before Tax and Exceptional Items)	(2.43)	(3.49)	(2.47)	(10.87)	
Net Profit/(+)/Loss(-) for the period before Tax (after Exceptional Items)	(2.43)	(3.58)	(2.47)	(10.95)	
Net Profit/(+)/Loss(-) for the period after Tax (after Exceptional Items)	(2.43)	(3.58)	(2.47)	(10.95)	
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / Loss for the period (after tax)	(2.43)	4.25	(2.47)	14.25	
Equity Share Capital	299.18	299.18	299.18	299.18	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet of the Previous Year	-	-	-	436.15	
Earning per share (of Rs. 10/- each) (not annualised) - Basic & Diluted (Rs.)	(0.08)	(0.12)	(0.08)	(0.36)	
Notes: The above is an extract of the Un Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2026 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11-06-2026 and filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirement) Regulations, 2015 as amended. The full format of the aforesaid Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.sebi.in) and also available on the Co. website (www.elloratraders.com)					
Date : 11.08.2026 Place : KOLKATA					
Sd/- Ramanavath Mahi Director					

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



Corporate Office: ICICI Home Finance Company Limited, ICICI HFC Tower, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, India
Branch Office: Ground floor, 10/4/38, P. Road, Sisamau, Rambhag Chauraha, Kanpur- 208012

Sole Notice for Sale of Immovable Assets through Private Treaty under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(8) r/w Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

ICICI Home Finance Company Limited (ICICI HFC) conducted several e-Auctions for the sale of the mortgaged property mentioned below, however, all such e-Auctions failed. Now, an interested buyer has approached ICICI HFC with an offer to purchase the said property for an amount of Rs. 17,50,000/-. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below-described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Ltd., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" by way of Private Treaty as per the brief particulars given hereunder:

Sr. No.	Name of Borrower(s)/ Guarantors/ Legal Heirs. Loan Account No.	Details of the Secured Asset(s) with known encumbrances, if any	Amount standing	Reserve Price Earnest Money Deposit	Date and Time of Inspection	Date & Time of Auction	One Day Before Auction Date	Sarfaesi Stage
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	Rajesh Singh (Borrower) Anwar Singh, (Co-Borrower) Mayank Singh, (Co-Borrower) Paros Singh (Co-Borrower) Lohan Singh	Plot No. 129 Situated at Part of Anazi No. 1489 situated at Barasirohi Kanpur Nagar	Rs. 15,56,348/- August 09, 2026	Rs. 17,50,000/- August 11:00 AM To 03:00 PM	August 21, 2026 11:00 AM To 12:00 PM	August 28, 2026 11:00 AM To 04:00 PM	before	Symbolic Possession

The online auction will be conducted on website (URL Link- <https://BidDeal.in/>) of our auction agency ValueTrust Capital Services Private Limited. The Prospective Bidders must submit the Earnest Money Deposit (EMD) RTGS/ Demand Draft (DD) (Refer Column E) at ICICI Home Finance Company Limited, Branch Office Address mentioned on top of the article on or before August 27, 2026 before 04:00 PM. The Prospective Bidder(s) must also submit a signed copy of the Registration Form & Bid Terms and Conditions form at ICICI Home Finance Company Limited, Branch Office Address mentioned on top of the article on or before August 27, 2026 before 05:00 PM. Earnest Money Deposit Demand Draft (DD) should be from a Nationalized/Scheduled Bank in favor of "ICICI Home Finance Company Ltd. - Auction" payable at the branch office address mentioned on top of the article.

The general public is requested to submit their bids higher than the amount being offered by the interested buyer mentioned above. It is hereby informed that in case no bids higher than the amount being offered by the aforementioned interested buyer is received by ICICI HFC, the mortgaged property shall be sold to the said interested buyer as per Rule 8(8) r/w Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

For any further clarifications with regards to inspection, terms and conditions of the sale or submission of bids, kindly contact ICICI Home Finance Company Limited on 9920807300 or ValueTrust Centralised HelpDesk No. 6200-22-6200.

The Authorized Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons. For detailed terms and conditions of the sale, please visit <https://www.icicihfc.com/>
Date : August 12, 2026
Place : Kanpur

Authorized Officer, "ICICI Home Finance Company Limited"
CIN Number: U65922MH1999PLC120106



HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015
Branch Offices : 2nd Floor, 212B & 212C, Plot No-TC/6-2/2 & TC/6-5/5, Cyber Heights, Vibhuti Khand, Gomi Nagar, Lucknow, U.P.-226010. Email: auction@hindujahousingfinance.com


ZRM - UMESH SINGH CHAUHAN - 9838202386 • RRM - PUSHKAR AWASTHI - 9453043399

RLM - BRAJESH AWASTHI - 9918301885

APPENDIX- IV A [See proviso to rule 8 (6)] Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix – IV A) [Rule 8(6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "the Rules"). Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below-described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Limited (Secured Creditor) having its Corporate Office at 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai - 600 015 and one of its Branch Offices at 2nd Floor, 212B & 212C, Plot No-TC/6-2/2 & TC/6-5/5, Cyber Heights, Vibhuti Khand, Gomi Nagar, Lucknow, U.P.-226010, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on the dates mentioned below for realization of the amount due to the Secured Creditor from the borrowers and guarantors. The sale will be done by the Authorized Officer through e-auction platform provided at the website: www.bankauctions.com & auction@hindujahousingfinance.com.

Sr. No.	Loan Account Number and Name of Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice u/s 13(2) Date and Amount	Date and Type of Possession	Reserve Price EMD Bid Increase Amount
1.	UPI/LK/LK/NA/A000001442, 1. Mr. Pushpendra Awasthi S/O Chail Bihari Awasthi, 2. Mrs. Ritzi Awasthi C/o Pushpendra Awasthi, Both R/O Sundar Nagar Fareepur Dubagga Kakoi Lucknow Uttar Pradesh, India - 227107 Description of the Immovable Property: Property No. 12 being part of Kharsa No. 365 Mahapur Lucknow Sub Registry 5th District Lucknow. Area Admeasuring 116.171 Sq.Mtr or 1250 Sq.Ft. Direction Boundaries: East: Road 19ft, West: Plot No 11, North: Plot No. 13, South: Arajee Deegar	6/Jun/2025 & Rs. 34,79,904/- Rs. 34,79,904/- as on 5/Jun/2025	15/Oct/2025 Symbolic Possession	Rs. 42,50,000/- Rs. 42,50,000/- Rs. 10,000/-
2.	UPI/LK/LK/NA/A000000397 & UPI/LK/LK/NA/A000000896 & UPI/LK/LK/LK/NA/A000001841, 1. Mr. Rajesh Kumar Singh S/O Jit Singh, 2. Mr. Jit Singh S/O Beerjan Singh, 3. Mrs. Meera Devi Description of the Immovable Property: Plot No. 11 admeasuring 1200 Sq.Mtr i.e 111.52 Sq.Mts. Only being portion of Kharsa No. 377 situated at Gargashur Behmanpur Pargana Tehsil District Lucknow. Area Admeasuring 1200 Sq.Ft. Direction Boundaries: East: Plot No. 10, West Plot No. 12, North: 20ft wide road, South: Other Property	25/Feb/2025 & Rs. 12,27,204/- Rs. 12,27,204/- as on 22/Feb/2025	17/Jun/2025 Symbolic Possession	Rs. 28,80,000/- Rs. 2,88,000/- Rs. 10,000/-
3.	UPI/LK/LK/NA/A000001016, 1. MRS. RESHMA RAWAT D/O LAL CHANDRA R/O Kursi road mishrapur gu gadama, Lucknow uttar Pradesh, Metro, Lucknow, Uttar Pradesh, India - 226026. Also at: Nizampur mahapur Lucknow uttar pradesh, Lucknow uttar pradesh, Metro, Lucknow, Uttar Pradesh, India - 217105. 2. MRS. RADHE SHYAM S/O SHIV KUMAR R/O Kursi road mishrapur gu gadama Lucknow, Lucknow uttar pradesh, Metro, Lucknow, Uttar Pradesh, India - 226026. Also at: Khurram nagar ring road kalyanpur post Vikas nagar Lucknow, Vikas nagar Lucknow, Metro, Lucknow, Uttar Pradesh, India - 226022 Description of the Immovable Property: A Residential Plot, Kharsa No. 2225a Ka Minjulia Village-pakramna, Pargana-mahona, Tehsil-bakshi Ka Talab, District-Lucknow, Sub-Registrar-B.K. T. Lucknow, Sub-Registrar-B.K. T. Lucknow-226026. Area Admeasuring 92.936 Sq.Mtr Or 1000 Sq.ft. Direction Boundaries-East: Field Of Jamuna Pradesh, West: Road 20ft Wide, North: Remaining Land Of Seller, South: Plot Sandeep	26/Mar/2024 & Rs. 5,80,079/- Rs. 5,80,079/- as on 10/Mar/2024	18/Oct/2024 Symbolic Possession	Rs. 16,00,000/- Rs. 1,60,000/- Rs. 10,000/-
4.	UPI/LK/LK/NA/A000002213, 1. Mr. SURESH GUPTA, 2. Mrs. SHIKHA GUPTA, 3. Mr. MOHAN LAL GUPTA All R/O-55KABAD, MAWAK NAGAR KANAUJI, OSHO NAGAR METRO, LUCKNOW, UTTAR PRADESH, INDIA - 226011 Description of the Immovable Property: Plot Being Part of Kharsa No.1354 and 1335 Ka Min Situated at Village - Ram Vihar Kanauji, Kesarin Kheda Lucknow, Sub Registrar - 5th Lucknow Ad Measuring Area 500 Sq Ft Direction Boundaries- East: Part of said property, West: 18ft road, North: Part of Said property, South: Plot Deegar	25/Oct/2024 & Rs. 5,23,058/- Rs. 5,23,058/- As On 14/Oct/2024	18/Mar/2025 Symbolic Possession	Rs. 13,48,000/- Rs. 1,34,000/- Rs. 10,000/-
5.	UPI/LK/LK/NA/A000001856, 1. Mr. Suneel Kumar Mishra, 2. Mrs. Prem Lata Mishra, W/o Suneel Mishra Both R/O 3687/2/2 Lakad Mandi Nor Beg Ka Hala Lucknow Uttar Pradesh-226003 Description of the Immovable Property: Plot No. 24 Being Part of 725 Ka Min Salempur Patnaua Kanak Distrit Lucknow Sub-registar 4 Lucknow. Area Admeasuring 83.643 Sq.Mtr. Direction Boundaries: East: Arajee Deegar, West: Road 18ft. North: Plot No 25, South: Plot No 23.	06/May/2024 & Rs. 34,50,368/- Rs. 34,50,368/- as on 06/Apr/2024	28/Mar/2025 Symbolic Possession	Rs. 40,50,000/- Rs. 4,05,000/- Rs. 10,000/-
6.	UPI/LK/LK/NA/A000001092, 1. Mr. Sayed Az			



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

दीमापुर शाखा

न्यामो लोथा रोड, क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल के विपरीत, दीमापुर, नागालैंड - 797112, ई-मेल: Dimapu@bankofbaroda.bank.in

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, दीमापुर शाखा, श्री विनोद ठाकुर और श्री संतोष ठाकुर के नाम पर निम्नलिखित संपत्ति को मेसर्स श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड के अनुरोध से ऋण/क्रेडिट सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में स्वीकार करने का इरादा रखता है। यदि किसी को नीचे उल्लिखित संपत्ति पर कोई अधिकार/स्वामित्व/हित/दावा प्राप्त है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक प्रमाण के साथ 10 दिनों के भीतर बैंक से संपर्क करें। यदि 10 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि संपत्ति किसी भी प्रकार/दावे/भार से मुक्त है और बैंक बंधक के साथ आगे बढ़ेगा।

संपत्ति का विवरण:
श्री विनोद कुमार ठाकुर एवं श्री संतोष कुमार ठाकुर के स्वामित्व में महावीर प्रसाद ब्लॉक, एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स, खेलगाँव, नई दिल्ली में स्थित 1600 वर्ग फुट क्षेत्रफल में जीएफ+3 मंजिला इमारत के दूसरी और तीसरी मंजिल पर डुप्लेक्स फ्री होल्ड आवासीय डीडीए आवंटित प्लॉट नंबर 720, सीमाएं:- उत्तर-पूर्व: खुला, दक्षिण-पश्चिम: प्रवेश, दक्षिण-पूर्व: दूसरी संपत्ति, उत्तर-पश्चिम: खुला।

(के.एच. झिमो)
मुख्य प्रबंधक
मोबाइल नं.: 8119922922
दिनांक: 10-08-2026

(हैंग्रंग ई एच न्यूमे)
सूचीबद्ध अधिकारी
मोबाइल नं.: 9220237781

SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED
CIN : L38210DL1985PLC020853
Regd. Office: Unit 204 Plaza P-3 Central Square 20 Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Sadar Bazar, Delhi, India - 110006
E-Mail: sns.prop.ltd@gmail.com, Tel. No. +91 9211945883 & Website: www.snsind.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026 (Rs. in Lakh)

S. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)
1.	Total Income from Operations	-	-	5.00
2.	Net Profit for the period before Tax	(0.25)	(3.81)	0.04
3.	Net Profit for the period after tax#	(0.25)	(3.81)	0.23
4.	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.25)	(3.81)	0.23
5.	Equity Share Capital	149.42	149.42	149.42
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	(76.08)
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)			
- Basic (in Rs.)	(0.02)*	(0.36)*	0.02	
- Diluted (in Rs.)	(0.02)*	(0.36)*	0.02	
	*Not annualised			

#The Company does not have any Exceptional and Extraordinary item to report for the above periods.
Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Metropolitan Stock Exchanges of India under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Results is available on Company's website : www.snsind.in and also on the MSEI website : www.msei.com and can be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



For SNS Properties and Leasing Limited
Sarthak Agarwal
Director
DIN : 09785554

Place: Kanpur
Date: 11.08.2026

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED
CIN : L24239HR1993PLC032120
Regd. Office : Village Bhandis, Tehsil Sohna, Dist. Gurgaon , Haryana - 122102
Phone: +91 9654746544, 9654206544 Email: compliance.kimiabiosciences@gmail.com & info@kimiabiosciences.com Website: www.kimiabiosciences.com,
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026 (₹ Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	30-06-2026 (Unaudited)	31-03-2026 (Audited)	30-06-2025 (Unaudited)	31-03-2026 (Audited)
I	Revenue from Operations	2,072.25	2,719.98	2,358.41	11,488.38
II	Other Income	8.06	100.69	84.69	162.17
III	Total Income (I+II)	2,080.31	2,820.67	2,443.10	11,650.55
IV	Expenses:				
a)	Cost of materials consumed	1,656.68	1,381.03	1,706.19	6,565.79
b)	Change in inventories of finished goods and work-in-progress	(533.54)	322.26	(290.32)	446.09
c)	Employee benefits expenses	296.97	303.87	327.67	1,261.61
d)	Finance costs	83.05	75.30	174.71	351.57
e)	Depreciation and amortisation expense	110.74	115.51	93.53	391.32
f)	Other expenses	417.43	448.28	362.18	1,788.16
V	Total Expenses (IV)	2,031.33	2,644.23	2,373.96	10,804.54
VI	Profit/(loss) before exceptional items and Tax (III-V)	48.98	176.44	69.14	846.01
VII	Exceptional items	-	-	-	-
VI	Profit/(loss) before tax (IV-V)	48.98	176.44	69.14	846.01
VII	Tax expenses:				
a)	Current Tax	-	-	-	-
b)	Deferred Tax charge / (credit)	13.40	140.68	8.74	104.19
VIII	Profit/(loss) for the period (VI-VII)	35.58	35.76	60.40	741.82
IX	Other Comprehensive Income				
A.	Items that will not be reclassified to Profit or Loss (Net of Tax) - Remeasurement of defined benefit plans	-	42.85	-	42.85
B.	Items that will be reclassified to Profit or Loss (Net of Tax)	-	(10.78)	-	(10.78)
X.	Total Comprehensive Income for the period (VIII+IX)	35.58	67.83	60.40	773.89
XI	Paid up equity share capital (Face value of Rs.1 per equity share)	473.13	473.13	473.13	473.13
XII	Other Equity				
XIII	Earnings per equity share (not annualised)				
Basic in Rs.	0.08	0.14	0.13	1.64	
Diluted in Rs.	0.08	0.14	0.13	1.64	

Other Notes:
1 The business activity of the Company falls within a single primary business segment viz 'Pharmaceuticals' and hence there is no other reportable segment as per Ind AS 108 'operating segments'.
2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 10, 2026.



FOR KIMIA BIOSCIENCES LIMITED
Sd/-
Sameer Goel
(Director)
DIN - 09161786

Date : August 10, 2026
Place : Gurugram

रामपुर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : पजेरु स्टडी रोड, रामपुर 244 901 (उत्तर प्रदेश)
सीआईएन : L15136UP1988PLC010084, ईमेल आईडी: rkumar@rampurfert.com,
30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्वतंत्र और समेकित वित्तीय नतीजों का विवरण (ईपीएस को छोड़कर आंकड़े लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	समेकित नतीजें			
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		30.06.2026 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	2506.98	1666.30	1385.08	5606.04
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादालम्बक मदों से घटकर)	579.89	0.98	310.34	580.48
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालम्बक मदों के बाद)	579.89	0.98	310.34	580.48
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	579.89	1.84	310.34	581.34
5	एकॉसिस्टेन्स के लाभ / (हानि) में हिस्सेदारी के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	579.89	1.84	310.34	581.34
6	राज्यक आय के बाद इस अवधि का शुद्ध लाभ / (हानि)	581.02	-4.26	313.57	571.03
7	अनुसूत इतिहासी शेयर पूंजी	494.82	494.82	494.82	494.82
8	जारी और बंद होने वाले परिचालन के लिए प्रति शेयर आय / (हानि) (रु. 10/- प्रत्येक का) (सालाना नहीं) (रु. में)				
(8)	बैकिंग / ब्रॉयलिंग	11.72	0.04	6.27	11.75

टिप्पणी : ऊपर दी गई जानकारी सेबी(एलओडीआर) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राप्ति का एक अंश है। वित्तीय परिणामों का पूरा प्राप्ति कंपनी की वेबसाइट www.rampurfert.com पर उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंज, यानी सीएफडी और एफएसई की भी उनकी वेबसाइट www.cse-india.com और www.mscin.in पर अपलोड करने के लिए भेजा गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ताक्षर /—
अनुमान खेतान
(प्रबंध निदेशक)



स्थान: रामपुर
दिनांक: 11.08.2026

कैलकॉम विज़न लिमिटेड
सीआईएन :- L92111DL1985PLC021095 पंजीकृत कार्यालय : सी-41, किफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
ईमेल आईडी: corp.compliance@calcomindia.com , वेबसाइट: www.calcomindia.com , संपर्क नंबर -0120-2569761
30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण (प्रति शेयर डेटा को छोड़कर, आंकड़े लाख रुपये में)

S. No.	विवरण	स्टैंडअलोन				समेकित			
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.06.2026 अलेखापरीक्षित	31.03.2026 लेखापरीक्षित	30.06.2025 अलेखापरीक्षित	31.03.2025 लेखापरीक्षित	30.06.2026 अलेखापरीक्षित	31.03.2026 लेखापरीक्षित	30.06.2025 अलेखापरीक्षित	31.03.2026 लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	6047.98	6839.32	4528.91	22097.61	6022.65	6825.57	4528.91	22085.22
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले, अपवादालम्बक और / या अलापरण आइटम)	61.85	95.35	94.17	346.56	45.28	21.39	93.98	274.06
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालम्बक और / या अलापरण आइटम के बाद)	61.85	95.35	94.17	346.56	45.28	21.39	93.98	274.06
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालम्बक और / या अलापरण आइटम के बाद)	46.28	51.40	69.93	245.51	10.63	-24.42	62.73	141.06
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय / (अवधि के लिए कुल शुद्ध लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद))	57.81	86.5	91.46	337.41	22.18	11.00	84.26	233.28
6	इक्विटी शेयर पूंजी(प्रत्येक रु.10 का अंकित मूल्य, पूर्णतः चुकता)	1,398.53	1,398.53	1,395.89	1,398.53	1,398.53	1,398.53	1,395.89	1,398.53
7	पूर्णमूल्यवान रिजर्व के बाद	-	-	-	4,610.58	-	-	-	4487.24
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक का) (जारी और बंद किए गएपरिचालन के लिए) -								
	बैकिंग	0.33*	0.37*	0.52*	1.76	0.09*	(0.06)*	0.47*	1.13
	संयोजित	0.33*	0.36*	0.51*	1.73	0.09*	(0.06)*	0.46*	1.11

टिप्पणी : ऊपर दी गई जानकारी सेबी(सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राप्ति का एक अंश है। वित्तीय परिणामों का पूरा प्राप्ति कंपनी की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट <https://calcomindia.com/investor-relations/financial-result> पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कैलकॉम विज़न लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर /—
एस. के. मलिक
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थान: ग्रेटर नोएडा
दिनांक: 11 अगस्त, 2026

NAGPUR HOUSING AND AREA DEVELOPMENT BOARD, NAGPUR
(REGIONAL UNIT OF MHADA)

E-Tender Notice for the Year 2026-2027
Digitally Signed & unconditional online tenders in form B-2 Agreement are invited by the Executive Engineer, Division-I, Nagpur Housing & Area Development Board, Nagpur, Gruha Nirman Bhavan, Opp. Deshpande Hall, Civil Lines, Nagpur- 440001, Phone No. 07122565692, Email ID : exengr01@gmail.com on behalf of Chief Engineer-II /MHADA, Mumbai. It is not necessary for bidder to registered with state PWD/CPWD/MES/MHADA/CIDCO or any other Govt. agency / organization undertaking. The age of organization with experience in similar work shall not be less than 5 years. Also the eligibility criteria is as per PWD Govt. circular no. Sankirma-2017/C.R.121 (part-II)Building. 2. https://mahatenders.gov.in.

Name of Work : CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF 15 MT. WIDE ROAD NO. 32,33 & 18 MT. WIDE DP ROAD NO. 4 PT, 25 & 24 MT. D.P. ROAD NO. 6, 19, PT AT NEW CHANDRAPUR

Estimate Cost	Rs. 94,17,75,234/- (Excluding GST, Royalty & Testing Charges)
EMD @ 0.5%	Rs. 47,08,900/-
Period for Completion of work	24 months (including monsoon)
Cost of Documents	Rs. 3540/- (including GST)
Document sale Start to End	12/08/2026 @ 9.00 Hrs. To 27/08/2026 @ 17.00 Hrs.
Prebid meeting	18/08/2026 @ 15.00 Hrs.
Bid submission Start to End	12/08/2026 @ 9.00 Hrs. To 27/08/2026 @ 17.00 Hrs.
Technical Bid Opening	31/08/2026 @ 16.00 Hrs.
Opening Authority	Dy. Chief Engineer - Nagpur Board

The detail tender notice and all other details are available on portal for e-tender. Contractor is required to get enrolled on the portal <https://mahatenders.gov.in> and get empanelled in relevant sub portal. The registered contractor has to obtain the Digital Certificate.
* The tender document will be published online on the website <https://mahatenders.gov.in> on dt. 12/08/2026
* Tender may be cancelled at any point of time without given any reason.

Executive Engineer - I
Nagpur Housing And Area Development Board, Nagpur.

जिई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड
(पहले में जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
(CIN: L31102DL1957PLC193993)
पंजीकृत कार्यालय: ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020,
फोन नं +91 120 5021500 ई-मेल: secretarial.compliance@governova.com
website : <https://www.governova.com/regions/asia/in/governova-tt-india>

70वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग के संबंध में सूचना
कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 5 मई 2022, 28 दिसंबर 2022, 25 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2025 को जारी परिपत्रों (संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्रों" कहा जाएगा) के अनुपालन में, कंपनी की 70वीं वार्षिक आम बैठक (70वीं एजीएम), बुधवार, दिनांक 09 सितंबर 2026 को अपराह्न 3:00 PM (भारतीय मानक समयानुसार) वीडियो कॉन्फरेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि 70वीं एजीएम बैठक की सूचना में वर्णित विषयों पर विचार एवं निर्णय किया जा सके।
एमसीए परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("SEBI") के मास्टर परिपत्र संख्या HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/1/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 70वीं वार्षिक आम बैठक ("AGM") की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("NSDL"), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("CDSL"), डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं।यदि कोई सदस्य वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने पंजीकृत ई-मेल पते से कंपनी को secretarial.compliance@governova.com पर अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमयूएफजी इन्स्टाडम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("RTA"), को investor.helddesk@in.mpmis.mufd.com पर अनुरोध भेज सकता है। अनुरोध में अपना फोनिय नंबर/DP ID और क्लाइंट ID का उल्लेख करना आवश्यक है।
ईमेल पते और बैंक विवरण पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका:
क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित फॉर्म (ISR-1, आधार से लिंक किए गए PAN की स्व-सत्यापित प्रति, तथा सदस्य के पते के प्रमाण के रूप में किसी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निवृत्तिपत्र पत्र, पासपोर्ट आदि) की स्व-सत्यापित प्रति और फॉर्म ISR-1 में निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज), कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमयूएफजी इन्स्टाडम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, को निम्नलिखित पते पर भेजें: युनिट: जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड रसोई कोर्ट, 5वीं मंजिल, 20, सर आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001 और
ख) डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपना ईमेल होने और/या बैंक खाताविवरण अपडेट करें।
ई-मतदान के माध्यम से वोट डालने तथा वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया:
कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल के माध्यम से 70वीं एजीएम से पहले रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का इस्तेमाल करके वोट करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए 70वीं एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है, बुधवार, 2 सितंबर, 2026 (जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट करने के हक्कार शेयरधारकों को तय करने की कट-ऑफ तारीख है) को भौतिक रूप या डिमैटरीयलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और डिमैटरीयलाइज्ड मोड या भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के 70वीं एजीएम में ई-वोटिंग और जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए विस्तृत प्रक्रिया 70वीं एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट <https://www.governova.com/regions/asia/in/governova-tt-india/financials>, NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, BSE लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.bseindia.com> तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.nseindia.com> पर भी उपलब्ध होगा।
जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे 70वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके ऑनगिन क्रेडिटियल जनरेट कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 70वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं करते हैं, तो 70वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग जगहों के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुनिवार, 5 सितंबर 2026 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से प्रारंभ होकर मंगलवार, 8 सितंबर 2026 को सायं 9:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) पर समाप्त होगी।
लाभार्थ और उसके भुगतान की रिपोर्टें निवि
क) सदस्यों को लाभार्थ का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक निर्देशपरिगम सर्विस या किसी अन्य माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में लाभार्थ पाने के लिए KYC नियमों का पालन करना होगा।
ख) निर्देशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के 500%, अर्थात् 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 2 रुपये का अंकित मूल्य) की दर से अंतिम लाभार्थ की सिफारिश की है, जिसका भुगतान 70वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों अनुमोदन मिलने पर किया जाएगा। यदि 70वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अंतिम लाभार्थ को अनुमोदन कर दिया जाता है, तो यह उन शेयरधारकों के बैंक खातों में सीधे जमा किया जाएगा जिसके नाम नीचे उल्लिखित रिपोर्टें तय तक सदस्यों के रजिस्ट्रार या डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्थिति (प्रवर्तन) हैं। लाभार्थ का भुगतान 70वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
ग) लाभार्थ के लिए रिपोर्टें तारीख शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 तक की गई हैं।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे 70वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना को और विशेष रूप से 70वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके और 70वीं वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के बारे में जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए
(पहले में जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
श्वेता मैमता
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank
सिस्टिकेट Syndicate

वसूली, कानूनी एवं धोखाधड़ी निवारण अनुभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, बी-35, साइबर मीडिया बिल्डिंग, प्रथम तल,
सेक्टर-32, गुडगांव 122003

15 दिनों की बिक्री सूचना
वित्तीय आसित्यों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,
2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,
2002 के नियम 8 (6) के प्राधान्य के साथ पठित।

आम जनता तथा नीचे वर्णित उपभोक्ताओं (ओं) को एक्टुवारा सूचित किया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता के पास बंध/प्रमाति नीचे वर्णित अवल संपत्ति, जिसका कब्जा संबंधित केनरा बैंक शाखाओं के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को सेवा प्रदाता द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है, और "जो कुछ भी है" ई-नीलामी में बेचा जाएगा।

ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.08.2026 शाम 5.00 बजे (ऑनलाइन) है
ई-नीलामी की तिथि 26.08.2026 दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक है
(बिक्री के निष्कर्ष तक प्रत्येक बार 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)

शाखा का नाम / उपभोक्ता (ओं) / गारंटर (ओं) के नाम एवं पता	बंधक रखी गई परिसंपत्तियों का विवरण	निविद तिथि के अनुसार कुल देयताएं	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (रु. में) कबजे का प्रकार
केनरा बैंक , गुरुना शाखा, अधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजमन (एन) 7082009438, 9053258589, ईमेल: eb2053@canarabank.com हेल्पडेस्क नंबर एन: 8291220220, ईमेल आईडी: Support.ekb@psblfinance.com वेबसाइट: https://baanet.net के माध्यम से	TATA SAFARIXA+ DARK , रजिस्ट्रेशन नं. HR 93B 8841, ईजून नं. 46343841-4199653, सेलिस नं. MAT631591NWH65111, ररा-डाक ब्लॉक	24.04.2026 को कुल देयताएं की 12,69,294 /—, साथ ही साथ 12 अंशों का ब्याज एवं अन्य शुल्क भी है (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर)	रु. 10.00 लाख / रु. 1.00 लाख
उपभोक्ता:। विनोद कुमार गोयल पुत्र धर्म चंद गोयल ब्राह्मण मोहल्ला गुरुना मेवात-122508 अनीता गोयल पत्नी विनोद कुमार गोयल मकान नं.- 1937 हुडा सेक्टर-02 पलवल-121102			भौतिक कब्जा

ए संपत्ति/संपत्तियाँ "जैसी है जहाँ है" की स्थिति में, यदि कोई भार हो तो उसके सहित, बेची जाएगी। (बैंक की जानकारी के अनुसार कोई भार नहीं है। भार के विवरण के लिए, नीचे r(कं) में उल्लिखित बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करने से पहले अधोपराखरी से संपर्क करें।)
बी. संपत्ति/संपत्तियाँ आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। सी. संपत्ति का निरोधन